

GOVT. DEGREE COLLEGE FOR WOMEN KATHUA

● USE OF AI & ICT TOOLS IN TEACHING LEARNING PROCESS

Organising One-week FDP For Teaching Staff of the College



Patron

**Dr. Savi Behl
Principal**


Expert Resource Persons for the Topic:

Dr. Sourabh Shastri (Sr. Asstt. Prof., HOD, Kathua Campus, JU)
Prof. Amit Sharma (Asstt. Prof., Kathua Campus, JU)
Prof. Anoop Sharma (Asstt. Prof., HOD, GDC Marheen)
Dr. Bandhana Devi, Project Associate under SERB
Prof. Sachinjeet Singh (Asstt. Prof., GDCW Kathua)
Prof. Surbhi Gupta (Asstt. Prof., GDCW Kathua)

**LET'S TALK ABOUT
THE FUTURE**

DATE: 20/01/2025 TO 26/01/2025

**VENUE: Computer Lab.
Dept. of Computer Appl.,
GDCW Kathua**



Organising Committee: Dr. Inderjeet Kour, Convener IQAC
Prof. Yash Paul, HOD Botany
Prof. Sachinjeet Singh, HOD Computer Appl.

Prof. Surbhi Gupta
Prof. Satish Khajuria
Prof. Sonika Jasrotia

**OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. DEGREE COLLEGE FOR WOMEN
KATHUA**

Ph. No.01922-232647

Dr. Savi Behl
Principal

(NAAC Accredited B+ Grade)

Mob. No. 94191-63028
email: womencollegekathua@gmail.com

NO. GDCWK/25/

Dated: 15/01/2025

Minutes of the Meeting

A meeting of IQAC along with the HOD Computer Department was held in the Principal chamber under the chairmanship of the worthy Principal Dr. Savi Behl on 15-01-2025 at 1.30 pm.

The agenda of the meeting was:









1. To plan and organize a Faculty Development Program (FDP) on the use of AI in teaching and learning processes.

Discussion:

Various points were discussed in the meeting and it was resolved unanimously that:

- A Faculty Development Program (FDP) is scheduled to take place from January 20, 2025, to January 26, 2025.
- The FDP will span seven days, with each session lasting two hours.
- The program will be held in the Computer Science Department.
- Speakers will be invited from renowned institutions specializing in AI research in education.
- All faculty members are required to register for the Faculty Development Program (FDP).
- A draft of the estimated expenditure must be submitted to the chair by January 18, 2025.
- Feedback will be collected from all participants at the end of the program.
- Mementos will be presented to all resource persons as a token of appreciation.
- E-certificates will be awarded to all participants, and light refreshments will be provided on the valedictory day.

Members present

Dr. Inderjeet kour (Iqac Convenor) 
Dr. Babita Mahajan 
Dr. Deepshikha 
Dr. Rachna Devi 
Dr. Amita dua 
Prof. Yashpal 
Prof. Ambica 
Prof. Sachinjeet singh (HOD Computer Department) 

Approved as proposed by
the members.

Principal




**OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. DEGREE COLLEGE FOR WOMEN
KATHUA-184101**

(NAAC Accredited B+ Grade)

*Prof. (Dr.) Savi Behl
Principal*

College Website: www.gdcwkathua.in

Ph. No. 01922-232647
Mob. No. 94191-63028

Email: womencollegekathua@gmail.com

Press Release

GDCW Kathua Hosts One-Week FDP on “Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process”

Kathua, January 26, 2025: Government Degree College for Women (GDCW), Kathua, successfully concluded a transformative one-week Faculty Development Program (FDP) on “Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process.” Organized by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in collaboration with the Department of Computer Applications, the FDP was held from January 20 to January 26, 2025, under the able patronage of the Principal, Dr. Savi Behl.

In her inaugural address, Dr. Behl highlighted the pivotal role of AI and ICT tools in modern education, emphasizing their potential to align teaching methodologies with global standards. She remarked, “This FDP equips educators to innovate their teaching methods, ensuring impactful learning experiences for students.”

The week-long sessions were conducted by eminent resource persons. On Day 1, Prof. Sachin Jeet Singh, Assistant Professor and Head of the Department of Computer Applications at GDCW Kathua, delivered a session on the “Effective Use of Google Forms and Introduction to Cloud Computing.” Day 2 featured a session by Prof. Anoop Sharma, Assistant Professor and Head of Computer Applications at GDC Marheen, who spoke on “AI in Excel.” On Day 3, Prof. Amit Sharma, Assistant Professor at Kathua Campus, JU, presented on “Machine Learning.”

Day 4 included a session by Prof. Surbhi Gupta, Assistant Professor at GDCW Kathua, who explored “Effective Googling and Virtual Labs Using AI & ICT Tools.” On Day 5, Prof. Bandhana Devi, Project Associate under SERB, discussed “Career Advancement Using Research in the Teaching-Learning Process.” Day 6 concluded with an insightful session by Dr. Sourabh Shastri, Senior Assistant Professor and Head of the Department at Kathua Campus, JU, on “The Future of Education: Using AI and ICT in Teaching and Learning.”

The program concluded on Day 7 with a valedictory session that included a detailed report by IQAC Convener, Dr. Inderjeet Kour, and the distribution of certificates to participants. In her closing remarks, Dr. Behl commended the efforts of the IQAC team and the Department of Computer Applications, highlighting the FDP’s contribution to revolutionizing classroom teaching and enhancing student outcomes.

Participants expressed their satisfaction with the program, appreciating its relevance in fostering innovation and skill enhancement.

Sd/-

Principal

FDP on 'Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process' concludes

NL CORRESPONDENT

Kathua: The Government Degree College for Women (GDCW), Kathua, successfully concluded a one-week Faculty Development Program (FDP) on the "Use of AI & ICT Tools in the Teaching-Learning Process," which ran from January 20 to January 26, 2025. The program was organized by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in collaboration with the Department of Computer Applications, with the support and guidance of the Principal, Dr. Savi Behl. In her inaugural address, Dr. Behl emphasized the importance of integrating AI and ICT tools into modern education, stating that these tools can help align teaching methods with global standards and improve the quality of learning. The sessions, led by distinguished resource persons, covered a range of topics aimed at enhancing teaching practices through technology.



On Day 1, Prof. Sachin Jeet Singh, Assistant Professor and Head of the Department of Computer Applications at GDCW Kathua, introduced the "Effective Use of Google Forms and Cloud Computing."

The following day, Prof. Anoop Sharma from GDC Marheen explored "AI in Excel," while Day 3 saw Prof. Amit Sharma from Kathua Campus, JU, delve into "Machine Learning."

On Day 4, Prof. Surbhi Gupta, Assistant Professor at GDCW Kathua, conducted a session on "Effective Googling and Virtual Labs Using AI & ICT Tools." Day 5 featured Prof. Bandhana Devi, Project Associate under SERB, who discussed "Career Advancement Using Research in the Teaching-Learning Process."

The final day of sessions, Day 6, included an insightful presentation by Dr. Sourabh Shastri, Senior Assistant Professor at Kathua Campus, JU, on "The Future of Education: Using AI and ICT in Teaching and Learning."

The program culminated on Day 7 with a valedictory session where Dr. Inderjeet Kour, IQAC Convener, presented a comprehensive report on the FDP. The participants were then awarded certificates for their involvement. In her closing remarks, Dr. Behl praised the efforts of the IQAC team and the Department of Computer Applications, acknowledging the program's impact in revolutionizing classroom teaching and improving student outcomes.

छात्रों के परीक्षा परिणामों को बढ़ाने में एफडीपीके योगदान पर डाला प्रकाश

जम्मू संसदसभा, कटुआ: सरकारी महिला डिग्री कॉलेज ने "शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईटी उपकरणों के उपयोग" पर एक सप्ताह का फ़ैकल्टी डेवेलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) सफलतापूर्वक समाप्त किया। कंप्यूटर अनुसंधान विभाग के सहयोग से आयोजित प्रोग्राम अवकाशमय प्रयोग (ऑन-कंप्यूटर) द्वारा आयोजित एफडीपी सिलेबस का सही मानने के संकेत में रात 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था।



महिला डिग्री कॉलेज कटुआ में आयोजित सप्ताह विदेशीय परीक्षा-उत्तराधिकारी संस्था विकास कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रभावशाली रूप से कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न सफ़्टवेयर और विभाग के प्रमुख डॉ. सौरभ शास्त्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि "एफडीपी के माध्यम से हमने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईटी उपकरणों के उपयोग का सही मानने के संकेत में रात 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था।"

सरकारी महिला डिग्री कॉलेज ने "शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईटी उपकरणों के उपयोग" पर एक सप्ताह का फ़ैकल्टी डेवेलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) सफलतापूर्वक समाप्त किया।

एफडीपी के प्रमुख डॉ. अनूप शर्मा का सच था, जिसने "एक्सेल में एआई" पर बात की। तीसरे दिन कटुआ के माध्यम से प्रमुख अवकाशमय प्रयोग (ऑन-कंप्यूटर) द्वारा आयोजित एफडीपी सिलेबस का सही मानने के संकेत में रात 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था।

दूसरे दिन "मिथुन-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईटी उपकरणों के उपयोग" पर बात की। तीसरे दिन कटुआ के माध्यम से प्रमुख अवकाशमय प्रयोग (ऑन-कंप्यूटर) द्वारा आयोजित एफडीपी सिलेबस का सही मानने के संकेत में रात 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था।



GDCW Kathua hosts One-Week FDP on “Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process”

REFUGEE MESSAGE BUREAU
KATHUA, JAN 26

Government Degree College for Women (GDCW), Kathua, successfully concluded a transformative one-week Faculty Development Program (FDP) on “Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process.” Organized by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in collaboration with the Department of Computer Applications, the FDP was held from January 20 to January 26, 2025, under the able patronage of the Principal, Dr. Savi Behl.

In her inaugural address, Dr. Behl highlighted the pivotal role of AI and ICT tools in modern education, emphasizing their potential to align teaching methodologies with global standards. She remarked, “This FDP equips educators to innovate their teaching methods, ensuring impactful learning experiences for



students.”

The week-long sessions were conducted by eminent resource persons. On Day 1, Prof. Sachin Jeet Singh, Assistant Professor and Head of the Department of Computer Applications at GDCW Kathua, delivered a session on the “Effective Use of Google Forms and Introduction to Cloud Computing.” Day 2 featured a session by Prof. Anoop Sharma, Assistant Professor and Head of Computer Applications at

GDC Marheen, who spoke on “AI in Excel.” On Day 3, Prof. Amit Sharma, Assistant Professor at Kathua Campus, JU, presented on “Machine Learning.”

Day 4 included a session by Prof. Surbhi Gupta, Assistant Professor at GDCW Kathua, who explored “Effective Googling and Virtual Labs Using AI & ICT Tools.” On Day 5, Prof. Bandhana Devi, Project Associate under SERB, discussed “Career Advancement

Using Research in the Teaching-Learning Process.” Day 6 concluded with an insightful session by Dr. Sourabh Shastri, Senior Assistant Professor and Head of the Department at Kathua Campus, JU, on “The Future of Education: Using AI and ICT in Teaching and Learning.”

The program concluded on Day 7 with a valedictory session that included a detailed report by IQAC Convener, Dr. Inderjeet Kour, and the distribution of certificates to participants. In her closing remarks, Dr. Behl commended the efforts of the IQAC team and the Department of Computer Applications, highlighting the FDP’s contribution to revolutionizing classroom teaching and enhancing student outcomes. Participants expressed their satisfaction with the program, appreciating its relevance in fostering innovation and skill enhancement.

GDCW Kathua Hosts One-Week FDP on "Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process"

JJ CORRESPONDENT

Kathua, January 26, 2025: Government Degree College for Women (GDCW), Kathua, successfully concluded a transformative one-week Faculty Development Program (FDP) on "Use of AI & ICT Tools in Teaching-Learning Process." Organized by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in collaboration with the Department of Computer Applications, the FDP was held from January 20 to January 26, 2025, under the able patronage of the Principal, Dr. Savi Behl. In her inaugural address, Dr. Behl highlighted the pivotal role of AI and ICT tools in modern education, emphasizing their potential to align teaching methodologies with global standards. She remarked, "This FDP equips educators to innovate their teaching methods, ensuring impactful learning experiences for students." The week-long sessions were conducted by eminent resource persons. On Day 1, Prof. Sachin Jeet Singh, Assistant Professor and Head of the



Department of Computer Applications at GDCW Kathua, delivered a session on the "Effective Use of Google Forms and Introduction to Cloud Computing." Day 2 featured a session by Prof. Anoop Sharma, Assistant Professor and Head of Computer Applications at GDC Marheen, who spoke on "AI in Excel." On Day 3, Prof. Amit Sharma, Assistant Professor at Kathua Campus, JU, presented on "Machine Learning." Day 4 included a session by Prof. Surbhi Gupta, Assistant Professor at GDCW Kathua, who

explored "Effective Googling and Virtual Labs Using AI & ICT Tools." On Day 5, Prof. Bandhana Devi, Project Associate under SERB, discussed "Career Advancement Using Research in the Teaching-Learning Process." Day 6 concluded with an insightful session by Dr. Sourabh Shastri, Senior Assistant Professor and Head of the Department at Kathua Campus, JU, on "The Future of Education: Using AI and ICT in Teaching and Learning." The program concluded on Day 7 with a valedictory

session that included a detailed report by IQAC Convener, Dr. Inderjeet Kour, and the distribution of certificates to participants. In her closing remarks, Dr. Behl commended the efforts of the IQAC team and the Department of Computer Applications, highlighting the FDP's contribution to revolutionizing classroom teaching and enhancing student outcomes. Participants expressed their satisfaction with the program, appreciating its relevance in fostering innovation and skill enhancement.

JAMMU/KATHUA

<http://>

जीडीसीडब्ल्यू कठुआ ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईसीटी उपकरणों का उपयोग पर एक सप्ताह का एफडीपी आयोजित किया

कठुआ केसरी ब्यूरो

कठुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन (जीडीसीडब्ल्यू), कठुआ ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एआई और आईसीटी उपकरणों का उपयोग विषय पर एक सप्ताह का परिवर्तनकारी संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) सफलतापूर्वक संपन्न किया। कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के सहयोग से आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) द्वारा आयोजित, एफडीपी 20 जनवरी से 26 जनवरी, 2025 तक प्रिंसिपल डॉ. सवि बहल के कुशल संरक्षण में आयोजित किया गया था।

अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. बहल ने आधुनिक शिक्षा में एआई और आईसीटी उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, और शिक्षण पद्धतियों को वैश्व मानकों के साथ संरेखित करने की उनकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह एफडीपी शिक्षकों को अपने शिक्षण विधियों को नया करने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे छात्रों के लिए प्रभावशाली सीखने के अनुभव सुनिश्चित होते हैं।

सप्ताह भर चलने वाले सत्र प्रखरात संभाषन व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए गए थे। पहले दिन, जीडीसीडब्ल्यू



कठुआ में सहायक प्रोफेसर और कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग के प्रमुख प्रो. सचिन जीत सिंह ने गूगल फॉर्म का प्रभावी उपयोग और क्लाउड कंप्यूटिंग का परिचय विषय पर एक सत्र दिया। दूसरे दिन जीडीसीटी मरहेन में सहायक

प्रोफेसर और कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रमुख प्रो. अनूप शर्मा का सत्र था, जिन्होंने एक्सेल में एआई पर बात की। तीसरे दिन कठुआ कैपस, जेयू में सहायक प्रोफेसर प्रो. अमित शर्मा ने मशीन लर्निंग पर प्रस्तुति दी। चौथे दिन

जीडीसीडब्ल्यू कठुआ में सहायक प्रोफेसर प्रो. सुरभि गुप्ता का सत्र था, जिन्होंने एआई और आईसीटी टूल्स का उपयोग करके प्रभावी गूगलिंग और वर्चुअल लेब्स पर चर्चा की। पांचवें दिन एसईआरबी के तहत प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रो. बंधना देवी ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अनुसंधान का उपयोग करके करियर में उन्नति पर चर्चा की। छठे दिन कठुआ कैपस, जेयू में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और विभाग के प्रमुख डॉ. सीरभ शास्त्री के शिक्षा का भविष्य शिक्षण और अधिगम में एआई और आईसीटी का उपयोग विषय पर एक ज्ञानवर्धक सत्र के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम का समापन 7वें दिन एक समापन सत्र के साथ हुआ जिसमें आईक्यूएसी संयोजक डॉ. इंदजीत कौर द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अपने समापन भाषण में, डॉ. बहल ने आईक्यूएसीटीएम और कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के प्रयासों की सराहना की, कक्षा शिक्षण में क्रांति लाने और छात्रों के परिणामों को बढ़ाने में एफडीपी के योगदान पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की, नवाचार और कोशल खूँड को बढ़ावा देने में इसकी प्रसंगिकता की सराहना की।

आप सितान का खंडन मानत मपात के लिए अति आभारगुरु है - ज्ञानी विद्या धामका ली







FEEDBACK

One-Week Faculty Development Programme (FDP) on "Use of AI and ICT Tools in the Teaching-Learning Process w.e.f 20-26 Jan, 2024" 7 days long FDP On AI and ICT in Teaching Learning Process

S.No.	Name:	Designation:	Programme Content : Q1:- How would you rate the relevance of the topics covered during the FDP?	Q2:- How well were the objectives of the FDP achieved?	Resource Persons: Q3:- How would you rate the knowledge and expertise of the resource persons?	Q4:- Were the resource persons able to effectively deliver and explain the content?	Sessions and Tools: Q5:- How useful were the AI and ICT tools demonstrated during the FDP?	6. Were the sessions engaging and interactive? Ratings(1-5)	Organization: 7. How would you rate the overall organization and scheduling of the FDP? Ratings(1-5)	Overall Experience 8. How satisfied are you with your overall experience in the FDP? Ratings(1-5)	Suggestions 9. What was the most valuable aspect of the FDP for you?	Suggestions 10. How can we improve future FDPs?
1	SACHIN JEET SINGH	Assistant Professor	Very Good	Mostly Achieved	Very Good	Moderately effectively	Very Useful	4	4	4	Practical applications of AI and ICT in the classroom.	Include more hands-on workshops or practical sessions.
2	Dr. Gurpreet kour	Assistant Professor	Very Good	Partially Achieved	Good	Moderately effectively	Somewhat Useful	4	3	3	Machine learning and also about some of the new tools of AI by Dr. Sourav, kathua campus, Jammu	By practical learning of AI tools
3	Dr. Surekha Rani	Assistant Professor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	3	5	5	Uses of AI and ICT tools	There should be atleast one resource Person from Arts subject who can show us the uses of AI and ICT tools in arts subject.
4	Dr.Ritu Kumar Sharma	Assistant professor	Excellent	Completely Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Very Useful	5	5	5	Awareness about the AI tools used in teaching learning process	No need of any improvement, everything is well managed
5	Dr. Mukesh Kumari	Assistant Professor	Very Good	Mostly Achieved	Very Good	Moderately effectively	Very Useful	5	4	4	Google forms and google practices	With more lectures and practices
6	Dr. Kamini Kapoor	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Very Useful	5	5	5	Getting knowledge about AI tools which is today's need	Practical part should be more
7	Dr. Amita Dua	Associate Professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Very Useful	5	5	5	All the sessions were interesting and interactive	By including hands on training
8	Dr Rachna Devi	Associate professor	Excellent	Mostly Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Very Useful	4	5	4	Chat gpt	Resource persons from different disciplines

S.No.	Name:	Designation:	Programme Content : Q1:- How would you rate the relevance of the topics covered during the FDP?	Q2:- How well were the objectives of the FDP achieved?	Resource Persons: Q3:- How would you rate the knowledge and expertise of the resource persons?	Q4:- Were the resource persons able to effectively deliver and explain the content?	Sessions and Tools: Q5:- How useful were the AI and ICT tools demonstrated during the FDP?	6. Were the sessions engaging and interactive? Ratings(1-5)	Organization: 7. How would you rate the overall organization and scheduling of the FDP? Ratings(1-5)	Overall Experience 8. How satisfied are you with your overall experience in the FDP? Ratings(1-5)	Suggestions 9. What was the most valuable aspect of the FDP for you?	Suggestions 10. How can we improve future FDPs?
9	Saurabh Dutta	Librarian	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Technical sessions along with ppt presentation	Extended sessions with practical interface.
10	Dr Ambica	Assistant professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Very Useful	5	5	5	AI tools in teaching learning	Msg must be conveyed to the resource persons well in advance that participants include faculty from all the disciples and so they should prepare their presentations in a very generalized manner
11	MANJOT SINGH	Assistant professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	4	5	4	AI tools in education	By incorporating practical sessions
12	Dr Syed Naser Ali Shah	Assistant Professor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Learend AI tools especially Google lens	By organising on hand training
13	Dr. Ajay Sanotra	Assistant Professor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Organize more FDPs	Organize at higher level
14	Dr. Inderjeet kour	Associate professor	Very Good	Mostly Achieved	Good	Yes, very effectively	Very Useful	4	3	4	Dedication of the organizers and resource persons	By making them more practical based
15	Karam Chand	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	4	4	Use of AI in research	More emphasis can be given to practical sessions.
16	Ram Murti	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Very Useful	5	1	3	With the help of ICT tools lesson should be more Interesting and effective.	The Participant can be Practically Engaged
17	Sanjeev jamwal	Physical training instructor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Very informative session conducted by every resource person	No improvement required very Well organised
18	Surbhi Gupta	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Very Useful	5	5	4	It was interactive	There must be a technical practice session for participants

S.No.	Name:	Designation:	Programme Content : Q1:- How would you rate the relevance of the topics covered during the FDP?	Q2:- How well were the objectives of the FDP achieved?	Resource Persons: Q3:- How would you rate the knowledge and expertise of the resource persons?	Q4:- Were the resource persons able to effectively deliver and explain the content?	Sessions and Tools: Q5:- How useful were the AI and ICT tools demonstrated during the FDP?	6. Were the sessions engaging and interactive? Ratings(1-5)	Organization: 7. How would you rate the overall organization and scheduling of the FDP? Ratings(1-5)	Overall Experience 8. How satisfied are you with your overall experience in the FDP? Ratings(1-5)	Suggestions 9. What was the most valuable aspect of the FDP for you?	Suggestions 10. How can we improve future FDPs?
19	Dr. Sonika Jasrotia	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	4	Informative and Knowledgeable	they must be a more practical
20	Dr Renu	Assistant professor	Very Good	Mostly Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Very Useful	4	4	4	Google forms and basics	Select those topics that are useful for everyone
21	Shikha khajuria	Teaching assistant	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Knowledge	Add more persons
22	Dr. Satish Khajuria	Assistant Professor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Gained a lot of knowledge on applying teaching skills in both personal life and the workplaceLear ned a lot on how to use in your life and work place a teacher	Excellent
23	Dr.Babita Mahajan	Associate Professor	Excellent	Completely Achieved	Excellent	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	5	Usefulness of AI	More such program should be conducted
24	Romika Bassin	Assistant Professor	Very Good	Mostly Achieved	Very Good	Moderately effectively	Very Useful	5	4	4	Organization	Thanks
25	Yash Paul	Assistant Professor	Excellent	Mostly Achieved	Very Good	Yes, very effectively	Extremely Useful	5	5	4	Congrats to organizing team for excellent work	All aspects of FDP were very good.